



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 2007/अग्राहायण 20, 1929

No. 111]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2007/AGRAHAYANA 20, 1929

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2007

आ.अ. 134(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि तारीख 17 सितम्बर, 2003 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/म.प्र.- लो.स. /2003(1) में निम्नलिखित संशोधन और किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ-2 में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :—

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)
24-खरगौन	<ol style="list-style-type: none"> <li>डिप्टी कलेक्टर, खरगौन</li> <li>अपर कलेक्टर, खरगौन</li> <li>तहसीलदार, पानसेमल</li> <li>तहसीलदार, बडवाहा</li> <li>तहसीलदार, महेश्वर</li> <li>तहसीलदार, खरगौन</li> <li>तहसीलदार, भगवानपुरा</li> <li>तहसीलदार, सेगांव</li> <li>तहसीलदार, भीकनगांव</li> <li>अधीक्षक भू-अभिलेख खरगौन</li> <li>अधीक्षक भू-प्रबंधन खरगौन</li> </ol>

निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेगी ।

[सं. 434/म.प्र.-लो.स./2003(1)]

आदेश से,

बर्नाड जॉन, सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 2007

**O.N. 134(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 434/MP-HP/2003(1), dated 17th September, 2003 namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification, the following entries shall be added :—

**TABLE**

No. and Name of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
24-Khargone	1. Deputy Collector, Khargone 2. Additional Collector, Khargone 3. Tehsildar Pansemal 4. Tehsildar Barwaha 5. Tehsildar Maheshwar 6. Tehsildar Khargone 7. Tehsildar Bhagwanpura 8. Tehsildar Segaoon 9. Tehsildar Bhikangaon 10. Superintendent of Land Records Khargone 11. Superintendent of Land Settlement Khargone

The appointment of above officer, as Assistant Returning Officer in respective constituency will cease to be effective on successful completion of counting of votes in the constituency concerned.

[No. 434/MP-HP/2003(1)]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.